



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, जून 8—जून 14, 2008, शनिवार/ज्येष्ठ 18—ज्येष्ठ 24, 1930  
No. 24] NEW DELHI, JUNE 8—JUNE 14, 2008, SATURDAY/JYAISTHA 18—JYAISTHA 24, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुस्तक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authority (other than the Administration of Union Territories)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 15 मई, 2008

सा.का.नि. 110.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परनुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय (आर्थिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

I. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय (आर्थिक अधिकारी) भर्ती संशोधन नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय (आर्थिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2006 की अनुसूची के स्तंभ 11 के शीर्षक में "पदों" शब्द के स्थान पर "रिक्त पदों" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए. 12012/5/2007-ई-1-ई.एस. (ई.ए.)]

के. संखवन, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 136 तारीख 10 जून, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 15th May, 2008

**G. S. R. 110.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Economics and Statistics (Economic Officer), Recruitment Rules, 2006, namely:—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Economics and Statistics (Economic Officer), Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Economics and Statistics (Economic Officer), Recruitment Rules, 2006, in column 11, in the heading, for the words "Posts", the word, "Vacancies" shall be substituted.

[F. No. A. 12012/5/2007-E.I-ES(EA)]

K. SANJAYAN, Under Secy.

**Foot Note :—**The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated 10th June, 2006 vide number GSR 136, dated the 22nd May, 2006.

नई दिल्ली, 30 मई, 2008

सा.का.नि. 111.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन विस्तार निदेशालय में निदेशक (विस्तार), संयुक्त निदेशक (विस्तार), विस्तार अधिकारी, सहायक विस्तार अधिकारी और तकनीकी सहायक (कृषि) भर्ती नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, विस्तार निदेशालय में निदेशक (विस्तार), संयुक्त निदेशक (विस्तार), विस्तार अधिकारी, सहायक विस्तार अधिकारी और तकनीकी सहायक (कृषि) (संशोधन) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, विस्तार निदेशालय में निदेशक (विस्तार), संयुक्त निदेशक (विस्तार), विस्तार अधिकारी, सहायक विस्तार अधिकारी और तकनीकी सहायक (कृषि) भर्ती नियम, 2000 में निदेशक (विस्तार), संयुक्त निदेशक (विस्तार) विस्तार अधिकारी, सहायक विस्तार अधिकारी और तकनीकी सहायक (कृषि) के पदों से संबंधित क्रमशः अनुसूची I से अनुसूची V के स्तंभ 11 में भर्ती की पद्धति शीर्ष के अधीन, "भरे जाने वाले पदों की संख्या" शब्दों के स्थान पर "भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1-1/2007-विस्तार]

रानी तलरैजा, अवर सचिव

**टिप्पण :** निदेशक (विस्तार), संयुक्त निदेशक (विस्तार), विस्तार अधिकारी, सहायक विस्तार अधिकारी और तकनीकी सहायक (कृषि) के पदों के लिए मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 374 तारीख 13 सितम्बर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 30th May, 2008

**G.S.R. 111.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Extension, Director (Extension), Joint Director (Extension), Extension Officer, Assistant Extension Officer, Technical Assistant (Agriculture) Recruitment Rules, 2000, in the Directorate of Extension under the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Directorate of Extension, Director (Extension), Joint Director (Extension), Extension Officer, Assistant Extension Officer, Technical Assistant (Agriculture) (Amendment) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Directorate of Extension, Joint Director (Extension), Extension Officer, Assistant Extension Officer, Technical Assistant (Agriculture) (Amendment)

Recruitment Rules, 2008, in Schedule I to Schedule V relating to the posts of Director (Extension), Joint Director (Extension), Extension Officer, Assistant Extension Officer, Technical Assistant (Agriculture) respectively in Column 11 under heading method of recruitment for the word 'posts', the word 'vacancies' shall be substituted.

[F. No. 1-1/2007-Extension]  
RANI TALREJA, Under Secy.

**Note :—**The Principle rules for the posts of Director (Extension), Joint Director (Extension), Extension Officer, Assistant Extension Officer, Technical Assistant (Agriculture) were notified in the Gazette of India vide GSR No. 374 dated 13th September, 2000.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2008

सा. का. नि. 112.-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय में वरिष्ठ तकनीकी सहायक (जैव-प्रभावोत्पादकता) भर्ती नियम, 1986 वनस्पति संरक्षण अधिकारी (कीट विज्ञान) और वनस्पति संरक्षण अधिकारी (व.रो.वि.) भर्ती नियमावली, 1989; सहायक कृषिविज्ञानी, भर्ती नियम 1990, को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय के अधीन वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के वनस्पति संरक्षण अधिकारी (कीट विज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय वनस्पति संरक्षण अधिकारी (कीट विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाब्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा क्या अनुज्ञेय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वनस्पति संरक्षण अधिकारी (कीट विज्ञान)	39* (उन्तालिप्त) (2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित (अनुसूचिकीय)	6500-200-10,500 रु.	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनु-देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवक के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	नहीं

(6)

टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

भर्ती की पद्धति : सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनिधित्व/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

(8)

(9)

(10)

(11)

अनिवार्य :—

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या कीट विज्ञान विशेषज्ञता या कृषि विज्ञान में एम.एस.सी. डिग्री या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता सहित प्राणि-विज्ञान में एम.एस.सी. डिग्री या समतुल्य  
(2) जनस्पति संरक्षण से संबंधित कीट विज्ञान के क्षेत्र में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

टिप्पण : 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण : 2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित

आयु : नहीं  
शैक्षिक अर्हता—नहीं  
लेकिन मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री या प्राणीविज्ञान विषय सहित स्नातक डिग्री या समतुल्य।

सीधे भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनिधित्व द्वारा (जिसमें अल्पकालिक सौविदा शामिल है) 50% सीधे भर्ती द्वारा।

(8)

अनुभव रखने वाले उन समुदायों के  
अध्यक्षियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध  
होने की संभावना नहीं है।  
बांछनीय—मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/  
संस्थान से कौट विज्ञान या कृषि कौट  
विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या समतुल्य।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा  
भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति  
या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती  
करने के लिए संघ लोक  
सेवा आयोग से परामर्श  
किया जाएगा

(12)

(13)

(14)

प्रोन्नति :

सहायक वनस्पति संरक्षण अधिकारी  
(की.वि.) जिसने 5500-9000 के वेतन-  
मान में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो।  
प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक  
संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/

समूह या विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)  
जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार — अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक (खरपतवार विज्ञान) — सदस्य
3. वनस्पति संरक्षण प्रभाग की देखभाल करने वाले  
अवर सचिव — सदस्य

सीधी भर्ती एवं प्रति-  
नियुक्ति (जिसमें अल्प-  
कालिक संविदा भी  
शामिल है) करते समय  
संघ लोक सेवा आयोग  
से परामर्श आवश्यक है।

संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  
अर्द्ध सरकारी/स्वायत्त या सवैधानिक  
संगठन/कृषि विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त  
अनुसंधान संस्था या परिवर्तों के ऐसे  
अधिकारी :

(क) (1) जिन्होंने मूल काष्ठ/विभाग में  
नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए  
हुए हों; या

(2) मूल काष्ठ/विभाग में जिन्होंने  
5500-9000 रु. के या इसके समतुल्य वेतनमान  
में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित  
आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष की  
नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तम्भ (8) के अधीन  
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के  
लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव  
हों।

(घोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी,  
जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रति-  
नियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए  
जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रति-  
नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के  
लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक  
संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत  
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य  
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक

4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वनस्पति संरक्षण,  
संगरोध एवं संग्रह निदेशालय — सदस्य

(12)

पहले धारित किसी अन्य काहर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[मिसिल संख्या 13-4/99 पी.पी.-11]

जीरा शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2008

**G.S.R. 112.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Senior Technical Assistant (Bio-efficacy) Recruitment rules, 1986, Plant Protection Officer (Entomology) and Plant Protection Officer (Plant Pathology), Recruitment Rules, 1989 and Assistant Nematologist, Recruitment Rules, 1990, in so far as they relate to the post of Plant Protection Officer (Entomology), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Plant Protection Officer (Entomology) in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage under the Ministry of Agriculture, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Plant Protection Officer (Entomology) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment of the said post, age limit, qualifications and other matters relating there shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Plant Protection Officer (Entomology)	39 (Thirty Nine)*2008 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, (Non-Ministerial)	Rs. 6500-200-10500	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lachh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	No
Educational and other qualification required for direct recruits		Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes		Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by Deputation/Absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	
(8)	(9)		(10)		(11)	
<b>Essential</b> (i) Master of Science degree in Entomology or Nematology or Master of Science degree in Agriculture with specialization in Entomology or Master of Science degree in Zoology with specialization in Entomology or Nematology from a recognized University or equivalent. (ii) Two years practical experience in Entomology related to Plant Protection.	Age : No Educational Qualification : No But must possess B.Sc. Degree in Agriculture or B.Sc. with Zoology as a subject from a recognized University/ Institute or equivalent.		2 years for Direct recruits.		50% promotion failing which by deputation (including short-term contract) 50% by direct recruitment.	

(8)

**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

**Desirable :** (i) Doctorate degree in Entomology or Agricultural Entomology from a recognized University/Institute or equivalent.

In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption and percentage of the post to be filled by various methods	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
<p><b>Promotion :</b> Assistant Plant Protection Officer (Entomology) in the pay scale of Rs. 5500-9000 with three years regular service in the grade. <b>Deputation (including short-term contract) :</b> Officer under the Central/State Governments/Union Territories/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Autonomous or Statutory Organisations/ Agricultural Universities/Recognised Research Institutions or Councils : (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ Department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre/ department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion/Confirmation) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plant Protection Adviser to the Government of India — Chairman</li> <li>2. Jt. Director (Weed Science) — Member</li> <li>3. Under Secretary looking after Plant Protection Division — Member</li> <li>4. Chief Administrative Officer, PPQ &amp; S — Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while making Direct recruitment and appointing an officer of deputation (including short-term contract).</p>



(12)

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application].

[F. No.13-4/99-PP-II]

NEERA SHARMA, Under Secy.

## खान मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मई, 2008

सा. कार. नि. 113.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय खान ब्यूरो (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1964 को, जहाँ तक उनका संबंध सहायक भाण्डागार अधिकारी के पद से है, और भारतीय खान ब्यूरो (भाण्डागार अधिकारी) (सहायक प्रोजेक्ट निदेशक) भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, भारतीय खान ब्यूरो में भाण्डागार अधिकारी और सहायक भाण्डागार अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खान ब्यूरो (भाण्डागार अधिकारी और सहायक भाण्डागार अधिकारी) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपायुक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—यह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुत्प्रेष है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

RC70 GI/08-3

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
-----------	----------------	----------	---------	---------------------	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. भाण्डगार अधिकारी	1* (2008) *कार्यधार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	8000-275-13,500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता
--	--	-----------------------------	--

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सर्विदा भी है) द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
---	---	---

(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति : ऐसा सहायक भाण्डगार अधिकारी (6500-10500 रुपए), जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है। छूट खांड ऐसे विद्यमान पदधारियों की अर्हता सेवा, जो संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :- 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 2. निदेशक/टप सचिव, खान मंत्रालय 3. अधीक्षण अधिकारी (अयस्क इंसिंग), भारतीय खान भ्यूरो	सीधी भर्ती करते समय और इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित या शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(12)

को नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, समान बनी रहेगी।

**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, आगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है ) :** केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वशासी संगठनों/अर्द्धसरकारी संगठनों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी -

(क) (i) जिन्होंने मूल काष्ठर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या  
(ii) जिन्होंने मूल काष्ठर/विभाग में 6500-10500 रुपये या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जो तकनीकी भाण्डागारों के मांग करने, क्रय करने में तथा भाण्डागार लेखा में तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है )** की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है ) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक माण्डागार अधिकारी	5* (2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय	6500-200- 10,500 रु.	चयन	30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	नहीं
टिप्पणी : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)						

(8)	(9)	(10)	(11)
आवश्यक :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या वाणिज्य में उपाधि या समतुल्य। (ii) किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग में या ख्यातिप्राप्त लोक उपक्रम/निजी उपक्रम में धातु प्रबंधन के क्षेत्र में दो वर्ष का अधीक्षण अनुभव। वांछनीय :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से धातु प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।	नहीं	सीधे भर्ती हुए और प्रोन्नत हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	60% प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति और दोनों के न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा। 40% सीधे भर्ती द्वारा।

(8)

टिप्पण : 1 अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण : 2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(12)

(13)

(14)

प्रोन्नति : पाण्डागारपाल (तकनीकी) (4500-7000 रुपए वेतनपान), जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी—

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सद्गुण पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5500-9000/- रुपए या समतुल्य के

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :-

1. निदेशक (अयस्क इंसिंग), भारतीय खान ब्यूरो - अध्यक्ष
2. अयस्क इंसिंग अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य
3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) :-

1. अयस्क इंसिंग अधिकारी/वप अयस्क इंसिंग अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - अध्यक्ष
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य

सीधी फर्ती करते समय और इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित या शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

2070 GJ/08-4

(12)

वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4500-7000/- रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है; और

(ख) स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संचिदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संचिदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[संख्या 22/6/2001-खान-III]

रवि कुमार मल्होत्रा, उप सचिव

## MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 29th May, 2008

G.S.R. 113.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Bureau of Mines (Class I and II posts), Recruitment Rules, 1964, insofar as they relate to the post of Assistant Stores Officer and the Indian Bureau of Mines (Stores Officer) (Assistant Project Director) Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stores Officer and Assistant Stores Officer in Indian Bureau of Mines, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Indian Bureau of Mines (Stores Officer and Assistant Stores Officer), Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scales of pay, etc.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Stores Officer	*1 (2008) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 8000-275-13500	Selection	Not applicable	No

Educational and other qualification required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	Promotion failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)	(14)
<b>Promotion :</b> Assistant Store Officer (Rs. 6500-10500) with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. <b>Exemption Clause :</b> The eligibility service of the existing incumbents holding the post on regular basis on the date of notification of the revised rules shall continue to be same.	<b>Group 'A' Department Promotion Committee (for considering Promotion) :</b> 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Director/Deputy Secretary, Ministry of Mines — Member 3. Superintending Officer (Ore Dressing) Indian Bureau of Mines —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and while amending or relaxing any of the provisions of these rules.
<b>Note :</b>		
Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.		
<b>Deputation (including short term contract) :</b> 1. Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Autonomous Organizations/Semi Government organizations/Public Sector Undertaking.		
(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/Department; or		
(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10,500/- or equivalent in the parent cadre/department; and		
(b) possessing three years experience in indenting, purchase of Technical stores and stores account.		



(12)

Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Stores Officer	*5 (2008) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, (Non-Ministerial)	Rs. 6500-200-10500	Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in the State of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of the State of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District	No

2070 GI/08-5

(6)			
		and Pangi Sub Division of Chamba District of the State of Himachal Pradesh, the Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Essential :</b> (i) A Degree in Science or Commerce of a recognized University or equivalent. (ii) Two years supervisory experience in the field of material management in Central/State Government department or in public Sector/private sector concern of repute. <b>Desirable :</b> Post graduate diploma in Material Management from a recognized university. <b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidate otherwise well qualified. <b>Note 2 :</b> The Qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribes if, any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	No	Two years for direct recruits and promotees	60% promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment. 40% direct recruitment.
(12)	(13)	(14)	
<b>Promotion :</b> Store Keeper (Technical) (pay scale Rs. 4500-7000 with eight years service in the grade. <b>Note :</b> Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed	<b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) :</b> 1. Director (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines — Chairman 2. Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines — Member 3. Senior Administrative Officer, Indian Bureau of Mines — Member <b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :</b> 1. Ore Dressing Officer/Deputy Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines — Chairman 2. Senior Administrative Officer/Administrative Officer, Indian Bureau of Mines — Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and while amending or relaxing any of the provisions of these rules.	

(12)

their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

**Deputation :**

1. Officers under the Central Government :—

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000/- or equivalent in the parent cadre/department; and

(iii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Rs. 4500-7000 or equivalent in the parent cadres/department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

The Departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

[No. 22/6/2001-Mines-III]

R. K. MALHOTRA, Dy. Secy.